



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 155-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021 (BHADRA 30, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 सितंबर, 2021

संख्या 45/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, ये नियम 29 अगस्त, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है), में नियम 26 में, उपनियम (1) में,—
(क) चौथे परंतुक में, "31 अगस्त, 2021" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2021" अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा
(ख) प्रथम नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;
- उक्त नियमों में, नियम 138ड में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा तथा प्रथम मई, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु यह और कि उक्त निर्बंधन, प्रथम मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण, जैसी भी स्थिति हो, मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।"
4. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एसएमटी-14 में,—
(क) "आपका रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात्, "आदेश प्रतिनिर्देश संख्या, दिनांक द्वारा," शब्द रखे जाएंगे;
(ख) "क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
(ग) अंत में, "पदनाम" के पश्चात्, "पता" शब्द जोड़ा जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st September, 2021

No. 45/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from 29.08.2021.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 26, in sub-rule (1), -
 - (a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, the figures, letters and words “31st day of October, 2021” shall be substituted; and
 - (b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted.
3. In the said rules, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted and shall have been deemed to be inserted from the 1st day of May, 2021, namely:-

“Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.”.
4. In the said rules, in **FORM GST ASMT-14**, -
 - (a) after the words, “with effect from -----”, the words, “vide Order Reference No. -----, dated -----” shall be inserted;
 - (b) the words, “for conducting business without registration despite being liable for registration” shall be omitted; and
 - (c) at the end after “Designation”, the word “Address” shall be inserted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.